



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 10—अप्रैल 16, 2010 (चैत्र 20, 1932)  
No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 10—APRIL 16, 2010 (CHAITRA 20, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1

### [PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के  
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public  
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the  
Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 4 दिसम्बर 2009

सं. ए-12025/2/2008-प्रशा.II--संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होने पर श्री कुमार संजय, स्थायी वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना सहायक, योजना आयोग को संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में पे बैण्ड-3, 15,600--39,100/- रु. तथा 6,600/- रु. के ग्रेड पे पर सीधी भर्ती के आधार पर दिनांक 25.11.2009 (पूर्वाह्न) [पच्चीस नवम्बर, 2009 (पूर्वाह्न)] से आगामी आदेशों तक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी (सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप 'क', राजपत्रित, अननुसूचित्वीय) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

2. श्री कुमार संजय द्वारा वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना सहायक के पद से दिये गये तकनीकी त्याग-पत्र को योजना आयोग ने 25.11.2009 (पूर्वाह्न) से स्वीकार कर लिया है।

3. श्री कुमार संजय दिनांक 26.11.2009 से एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा की अवधि पर होंगे, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर बढ़ाया भी जा सकता है।

4. श्री कुमार संजय की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग के दिनांक 16.11.2009 के समसंख्यक पत्र में निर्दिष्ट शर्तों के अधधीन होगी।

5. श्री कुमार संजय का वेतन केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के अंतर्गत दिनांक 25.11.2009 (पूर्वाह्न) से पे बैण्ड-3, 15,600--39,100/- रु. तथा 6600/- रु. के ग्रेड पे में 25350/- रु. पर नियत किया जाता है।

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशासन)

दिनांक 11 जनवरी 2010

सं. ए-35018/5/2006-प्रशा.II--इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 10.12.2007 के अनुक्रम में श्री के. श्रीनिवासन, नियमित सहायक, केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग, संघ लोक सेवा आयोग, जिन्हें दिनांक 06.12.2007 से प्रतिनियुक्ति आधार पर 9,300--34,800/- रु. सहित 4600/- रु. के ग्रेड वेतन वाले पी. बी.-2 के संशोधित वेतन ढांचे में कनिष्ठ विश्लेषक (ग्रुप 'बी' राजपत्रित) के पद पर नियुक्त किया गया था, की प्रतिनियुक्ति की अवधि को एक वर्ष के लिए अर्थात् 18.11.2009

से 17.11.2010 तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, आगे विस्तारित किया जाता है।

2. प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान श्री के. श्रीनिवासन, कनिष्ठ विश्लेषक (सं. प. एवं का. अ.) का वेतन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 05.01.1994 के समय-समय पर यथा संशोधित का.ज्ञा. सं. 2/29/91-स्था. (वेतन. II), के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशासन)

दिनांक 17 फरवरी 2010

सं. ए-60011/13/09-सू.अधि.अधिनियम प्रकोष्ठ (प्रशा.)--सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) तथा धारा 5 (2) में निहित शर्तों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई विशिष्ट विषय वस्तु के संबंध में एतद्वारा अपीलीय प्राधिकारी तथा केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित किया जाता है :-

क्रम सं.	अपीलीय प्राधिकारी का नाम	विषय वस्तु	केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम
1	2	3	4
1.	श्री एम. पी. तनिराला, संयुक्त सचिव (प.) दूरभाष नं. 23070831 फैक्स नं. 23387310	स.चि.से., इ.से.प. भा.व.से., रा.र.अ. एवं नौ. से. अका. I एवं II, स.रे.से. I एवं II, के.पु.ब., भा.आ.से./भा.सां.से. भू. वि. स्मे. क्ला. रे. अग्रे. अनु अधि/आशुलिपिक (ग्रेड 'ख') सी.वि.प्र.प. से संबंधित सभी मामले तथा परीक्षा शाखा से संबंधित अन्य विविध मामले तथा उपर्युक्त परीक्षा के संबंध में गोपनीय शाखा से संबंधित मामले।	श्री रामेश्वर दयाल, उप सचिव (प. III) दूरभाष नं. 23384610 फैक्स नं. 23387310
2.	श्री एम. पी. तनिराला, संयुक्त सचिव (प.) दूरभाष नं. 23070831 फैक्स नं. 23387310	सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित सभी मामले, परीक्षा से संबंधित नीतिगत मामले, गोपनीय शाखा से संबंधित मामले तथा सं.लो.से.आ. द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं/भर्ती परीक्षाओं के संबंध में व्यवस्था किए जाने से संबंधित मामले।	श्री प्राचीरा खन्ना, उप सचिव (प. I) दूरभाष नं. 23381131 फैक्स नं. 23384472
3.	सुश्री जी. जी. शाबोंग, संयुक्त सचिव (भ. I) दूरभाष नं. 23384290 फैक्स नं. 23388294	भ. I संवीक्षा अनुभाग, एस.पी. सी.-I, एस.पी.सी.-II, सलाहकार कक्ष, पैनल एवं डाटा बैंक एवं प्रोग्राम एकक से संबंधित सूचना का अधिकार से संबंधित सभी मामले	श्री जसवंत सिंह, उप सचिव (भ. I) दूरभाष नं. 23098548 फैक्स नं. 23388294

1	2	3	4
4.	श्री कमल भगत संयुक्त सचिव (भ. II) दूरभाष नं. 23385627 फैक्स नं. 23388294	भ. II, भा. III, भ. IV संवीक्षा अनुभाग, आईएफसी, उप सचिव (भ. V) भ. (सं. एवं. नौ.) से संबंधित सूचना का अधिकार से संबंधित सभी मामले तथा अन्य विविध मामले।	श्री पी. पी. हलधर, दूरभाष नं. 23387842 फैक्स नं. 23388294

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशासन)

दिनांक 19 फरवरी 2010

सं. ए-35018/2/2009--प्रशा. II--इस कार्यालय की दिनांक 27.11.2009 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में जिसमें श्री राजेश जोशी, आशुलिपिक ग्रेड "सी" संघ लोक सेवा आयोग को अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के स्टाफ अधिकारी के पद पर संशोधित वेतन ढांचा पी.बी.-2, 9,300--34,800/- रु., सहित ग्रेड पे 4,800/- रु. प्रतिमाह (ग्रुप "ख" राजपत्रित) में तदर्थ प्रतिनियुक्ति की अवधि अगले 03 महीने अर्थात् 18.02.2010 से 17.05.2010 (दिनांक 17.02.2010 को तकनीकी ब्रेक देते हुए) की अवधि या नियमित आधार पर पद को भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए विस्तारित की जाती है।

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशासन)

सं. ए-35018/3/2009--प्रशा. II--इस कार्यालय की दिनांक 27.11.2009 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में जिसमें श्री अवधेश ठाकुर, आशुलिपिक ग्रेड "सी" संघ लोक सेवा आयोग, को सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के स्टाफ अधिकारी के पद पर संशोधित वेतन ढांचा पी.बी.-2, 9,300--34,800/- रु., सहित ग्रेड पे 4,800/- रु. प्रतिमाह (ग्रुप "ख" राजपत्रित) में तदर्थ प्रतिनियुक्ति की अवधि अगले 03 महीने अर्थात् 17.11.2009 से 16.02.2010 (दिनांक 17.02.2010 को तकनीकी ब्रेक देते हुए) की अवधि या नियमित आधार पर पद को भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए विस्तारित की जाती है।

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशासन)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 मार्च 2010

सं. डीपी/पर्स.(एम)/2010/794/3/52/2003--श्री आर. के. शर्मा ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकार्यता होने पर दिनांक 16.03.2010 के

पूर्वाह्न से कार्यालय अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

एम. सचदेव  
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 22 मार्च 2010

सं. ई-16015/(2)/32/2009/कार्मिक.1/49--राष्ट्रपति, के.ओ.सुब के निम्नलिखित वरिष्ठ कमाण्डेंटों को रु. 37,400--67,000/- (पीबी-4) + ग्रेड पे रु. 8,900/- के वेतनमान में के.ओ.सु बल में उप महानिरीक्षक के पद में नियमित पदोन्नति होने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से उन्हें इस पद पर नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	कार्यालय/इकाई जहां पर कार्य-भार ग्रहण किया	उप महानिरीक्षक के रूप में कार्य-भार संभालने की तिथि
(सर्व श्री/श्रीमति)			
1.	बी. एन. भट्टाचार्य	डी.एम. बल मुख्यालय, नई दिल्ली	02.02.2010 (अपराह्न)
2.	एस. के. हाजरा	एयरपोर्ट नार्थजोन नई दिल्ली	02.02.2010 (अपराह्न)
3.	एस. आर. दहिया	एसईसीएल बिलासपुर छत्तीसगढ़	02.02.2010 (अपराह्न)

ह./- अपठनीय  
महानिदेशक/के.ओ.सुब

सं. ई-16015/प्रतिनियुक्ति/52/कार्मिक-1/पी.एफ./50--मिश्र धातु निगम लिमिटेड, कंचनबाग हैदराबाद में तीन साल के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर चीफ सिक्कुरिटि आफिसर के पद पर नियुक्ति के फलस्वरूप, श्री बी. बी. महाकुड, उप कमाण्डेंट ने दिनांक 31.12.2009 (अपराह्न) से, उप कमाण्डेंट, के.ओ.सुब इकाई, आई.एस.पी., नासिक का पदभार छोड़ दिया है।

ह./- अपठनीय  
महानिदेशक/के.ओ.सुब

आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय  
भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग  
कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा

नई दिल्ली-110002, दिनांक 26 फरवरी 2010

सं. ए.एम.जी.-1/प्रशासन-1/2(1)राजपत्र/2010/914--प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय, नई दिल्ली, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तिथि से पे बैंड-2 में रुपये 9,300--34,800/- तथा रुपये 5,400/- के ग्रेड पे में अंतिम आधार पर लेखापरीक्षा अधिकारी (वर्ग 'ख' राजपत्रित) के रूप में पदोन्नति होने के आदेश देते हैं :-

क्रम सं.	नाम	तिथि
सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री		
1.	तुषार कान्ति घोष	16.09.2008
2.	टी. उषाश्री	31.07.2008
3.	करतार सिंह मेहरा	01.08.2008
4.	वीना आई. गोवन श्रोटे	01.04.2009
5.	राजेन्द्र कुमार-I	01.01.2009
6.	संजीव शर्मा	02.02.2009
7.	दीपक खुराना	19.05.2009
8.	गिरीश शर्मा	01.10.2009
9.	मोलोय मोहन दास	20.11.2009
10.	बी. प्रतिमा	24.11.2009
11.	एस. जे. पाटिल	24.11.2009
12.	गैदा लाल	01.12.2009
13.	बी. दीपा	09.02.2010
14.	मेघा कौशिक	09.02.2010

जे. पी. एन. सिंह  
निदेशक (प्रशासन)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय  
(फिल्म प्रभाग)

मुंबई-400026, दिनांक 17 मार्च 2010

सं. ए-32014/2/2009-स्थापना-I--विभागीय पदोन्नति समिति के सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी, श्री अशोक कुमार हितैशी, सहायक छायाकार, फिल्म प्रभाग, नई दिल्ली को, पदोन्नति के आधार पर, छायाकार (वर्ग 'ख') राजपत्रित के पद पर, रु. 9,300--34,800/- पीबी-2, ग्रेड पे रु. 4,600/-रु. के वेतनमान में, उसी कार्यालय में दिनांक 16 फरवरी, 2010 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक नियुक्त करते हैं।

टी. टी. फर्नांडिस  
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी)  
कृते महानिदेशक

## भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुंबई-400085, दिनांक 17 मार्च 2010

सं. पी.डी./7(12)/2009/भर्ती-IV/एसओ/एफ/2770--क्रमांक पीडी/7(12)/2009/भर्ती-IV/एसओ/एफ/284, दिनांक 8 जनवरी 2010 को जारी की गयी अधिसूचना के संदर्भ में। उपर्युक्त अधिसूचना के क्रम संख्या 46 में दर्शाये गये श्री राम सेवक सिंह की पदोन्नति की प्रभावी तिथि को संशोधित कर 01.07.2009 के बदले 06.07.2009 के अनुसार पढा जाए।

शैलजा प्रकासम  
उप स्थापना अधिकारी

सं. पीडी/7(18)/2009/भर्ती-IV/टीओ(बी)/ईटीजी/खंड फाइल/2796--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निम्नलिखित वैज्ञानिक सहायक ग्रेड-सी को तकनीकी अधिकारी ग्रेड-बी के पद पर पे बैंड रु. 9,300--34,800 + ग्रेड पे रु. 4,800/- में, दिनांक 01 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक, स्थानापन्न रूप से इसी अनुसंधान केन्द्र में कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम
1.	श्री नितिन कुमार शर्मा
2.	श्री राकेश कुमार

शैलजा प्रकासम  
उप स्थापना अधिकारी

दिनांक 18. मार्च 2010

सं. पीडी/7(16)/2009/भर्ती-IV/(एसओडी)/2820--राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजीनियरों ग्रेड-सी पे बैंड रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड पे रु. 5,400/- को वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड 'डी' के पद पर पे बैंड रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड पे रु. 6,600/- के वेतनमान में इसी अनुसंधान केन्द्र में 1 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न से, श्री अमोल मधुकर शिंदे, क्रम संख्या 10 जिनकी नियुक्ति तिथि 6 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न से है को छोड़कर, आगामी आदेशों तक, स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम
1	2
1.	श्री राजेश कुमार मिनिया
2.	श्री थेओदोर सोरेंग
3.	श्रीमती गोयल अनिता एच.
4.	श्री डीगुवापल्ली हनुमंतय्या परशुराम

1	2
5.	डॉ. राजेश कुमार
6.	श्री पी. प्रवीण कुमार
7.	श्री संजय कुमार पाठक
8.	श्रीमती प्रीता जयप्रकाश
9.	श्री एस. एल. असन अली
10.	श्री अमोल मधुकर शिंदे
11.	श्री हरिमोहनन चिट्टिलमवीड मुरलीधरन पिल्लई
12.	श्री दीपक कुमार
13.	श्रीमती रेचल चेरियन
14.	श्री के. पद्मनाबन
15.	श्री रश्मि राज सिंह
16.	श्री जोतीवेल कुमारसामी
17.	श्री संदीप दत्तात्रय राऊत
18.	श्री रामकृष्ण शेषमणी विश्वकर्मा
19.	श्री सत्रे संजय रामचंद्र
20.	श्रीमती दीपा अनिल कुमार
21.	श्री देवेंद्र भा. कुलकर्णी
22.	श्री सुदेश महेश त्रिपाठी
23.	श्रीमती वैशाली म. ठाकुर
24.	श्रीमती गीता वामन नाबर
25.	श्रीमती रेखा प्रद्युम्न उपाध्ये
26.	श्रीमती तुर्लापाटी स्वर्णा
27.	श्री शिंदे अनिल भिमराव
28.	श्रीमती सौदामिनी एन.
29.	श्री कडलासकर अण्णासाहेब पांडुरंग

शैलजा प्रकासम  
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400001, दिनांक 9 मार्च 2010

सं. 6(2523)/2010-प्रशा./2378--राष्ट्रपति, निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय के वरिष्ठ लेखा अधिकारी (वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/-) श्री पी. वी. धोंगडी को

पदोन्नत करके दि. 25 फरवरी 2010 के पूर्वार्ह से परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय, मुंबई में उप लेखा नियंत्रक (वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

बी. गोविंदनकुट्टी  
अवर सचिव

सं. 6(2441)/2006-प्रशा./2386--राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय, मुंबई के वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कंप्यूटर कोड संख्या 3/554) (वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/-) श्री ए. एस. ससिकुमार को पदोन्नत करके दि. 23 फरवरी 2010 के पूर्वार्ह से परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय, मुंबई में उप लेखा नियंत्रक (वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

बी. गोविंदनकुट्टी  
अवर सचिव

राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

इंदौर, दिनांक 17 मार्च 2010

सं. आरआरकेट/2009-प्रशा./आर-805(जे)/311--राष्ट्रपति, निम्नलिखित कर्मचारियों को पदोन्नति पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई ग्रेड, पे बैंड और तिथि से राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर में नियुक्त करते हैं :-

क्र. संसं.	नाम	वर्तमान ग्रेड (पे बैंड + ग्रेड वेतन)	पदोन्नत ग्रेड (पे बैंड + ग्रेड वेतन)	दिनांक से (पूर्वार्ह)
1. 603	श्री प्रदीप कोत	वैज्ञानिक अधिकारी/सी (पीबी-3, रु. 15,600-- 39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/-)	वैज्ञानिक अधिकारी/डी (पीबी-3, रु. 15,600-- 39,100/- + ग्रेड वेतन + रु. 6,600/-)	01.07.2009
2. 692	श्री के. एन. येडले	-वही-	-वही-	-वही-
3. 712	श्री अविनेश कुमार	-वही-	-वही-	-वही-
4. 761	श्री टी. आर. सजित कुमार	-वही-	-वही-	-वही-
5. 857	श्री एम. ओ. इंदुप	-वही-	-वही-	-वही-
6. 879	श्री लोकेश कुमार बब्बर	-वही-	-वही-	-वही-
7. 479	श्री ए. पी. सिंह	वैज्ञानिक अधिकारी/एसबी (पीबी-2, रु. 9,300-- 34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/-)	वैज्ञानिक अधिकारी/सी (पीबी-3, रु. 15,600-- 39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/-)	-वही-
8. 1217	श्री बालकृष्ण सिंदल	-वही-	-वही-	-वही-
9. 1369	श्री रवि कुमार	-वही-	-वही-	-वही-
10. 1383	श्री आनन्द यादव	-वही-	-वही-	-वही-
11. 1271	श्री अशोक कुमार	वैज्ञानिक सहायक/डी (पीबी-2, रु. 9,300-- 34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/-)	-वही-	01.08.2008

आर. पी. आचार्य  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

भारी पानी बोर्ड

मुंबई-400094, दिनांक 22 मार्च 2010

सं. भापाबो/भर्ती/2(5)/2009/208--राष्ट्रपति, निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'सी' के पद पर रु. 15,600--39,100/- के वेतन बैंड + रु. 5,400/- के ग्रेड वेतन पर कालम सं. 4 में प्रत्येक के सामने उल्लिखित भारी पानी संयंत्रों में दिनांक 01 सितम्बर, 2009 के पूर्वार्ह से आगामी आदेशों तक अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं।

क्र. सं.	नाम	विषय	नियुक्ति का स्थान	सिफारिश की गई वेतनवृद्धियों की संख्या	आरंभिक वेतन
सर्वश्री					
1.	आदित्य प्रकाश	इलेक्ट्रिकी	भापास (कोय)	03	रु. 17,490/-
2.	हुईद्रेम प्रेमजीत सिंह	रसायन	भापास (पशुगुरु)	02	रु. 16,860/-

के. बी. पिल्लै  
प्रशासनिक अधिकारी-III

जल संसाधन मंत्रालय  
केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड

फरीदाबाद, दिनांक 22 मार्च 2010

सं. 3-1684/2009-अनु. स्था. 2049--विभागीय प्रोन्नति समिति (समूह-ख) की सिफारिशों पर श्री एच. सी. छाबड़ा को पे बैंड-2 के 9,300--34,800/- रुपये के वेतनमान पर एवं 4,600/- रु. ग्रेड पे सहित निजी सचिव सा.सि.से (समूह-ख) (राजपत्रित) के पद पर केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड में अस्थाई आधार पर दिनांक 31 दिसम्बर 2009 के (पूर्वार्ह) से पदोन्नत किया जाता है।

उपरोक्त पदाधिकारी दिनांक 31 दिसम्बर 2009 से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर रहेंगे जो कि सक्षम अधिकारी की स्वीकृति पर बढ़ाई जा सकती है।

मूल चन्द वर्मा  
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

कम्पनी मामले मंत्रालय  
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स सिबली मैटल एण्ड अलाईड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 14 अक्टूबर 2009

सं. 560(3)/एमसीए/आरओसी-दिल्ली (सीजीओ)/सैक्शन 560/2009/00014--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सिबली मैटल एण्ड अलाईड इन्डस्ट्रीज

लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

ई. तिरकी  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स मेहसाना मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में  
अहमदाबाद-380013, दिनांक 26 मार्च 2010

सं. आर.ओ.सी./32504/एस.टी.ए./560/200--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मेहसाना मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कमल हरजानी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स सेनच्युर इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के विषय में  
अहमदाबाद-380013, दिनांक 26 मार्च 2010

सं. आर.ओ.सी./52987/एस.टी.ए./560/200--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सेनच्युर इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कमल हरजानी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स एमएमडीएच एण्ड सन्स वाइन्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में  
शिलांग-793001, दिनांक 24 मार्च 2010

सं. 560(3)/एमसीए/जी.सी. शिलांग/7975--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एमएमडीएच एण्ड सन्स वाइन्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

जी. सी. यादव  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उ. प. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स बिलैन सिस्टम्ज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 18 मार्च 2010

सं. 11259--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बिलैन सिस्टम्ज प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. अमीरुल मिल्लथ  
कम्पनी पंजीयक  
केरल एवं लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स श्री निलकण्ठा इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 19 मार्च 2010

सं. 6092--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्री निलकण्ठा इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. अमीरुल मिल्लथ  
कम्पनी पंजीयक  
केरल एवं लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स एलमेड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 19 मार्च 2010

सं. 18294--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एलमेड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. अमीरुल मिल्लथ  
कम्पनी पंजीयक  
केरल एवं लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स सिबिएसएल सोफ्टटेक इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 18 मार्च 2010

सं. 12698--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सिबिएसएल

सोफ्टटेक इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. अमीरूल मिल्लथ  
कम्पनी पंजीयक  
केरल एवं लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स के वी ए कोप्रा एण्ड ऑयल उद्योग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 19 मार्च 2010

सं. 3830--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स के वी ए कोप्रा एण्ड ऑयल उद्योग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. अमीरूल मिल्लथ  
कम्पनी पंजीयक  
केरल एवं लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स कोर बिजनेस क्रेडिट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 19 मार्च 2010

सं. 9742--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कोर बिजनेस क्रेडिट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. अमीरूल मिल्लथ  
कम्पनी पंजीयक  
केरल एवं लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स साऊथ ईस्ट वर्ल्ड लिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 19 मार्च 2010

सं. 8531--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स साऊथ ईस्ट वर्ल्ड लिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. अमीरूल मिल्लथ  
कम्पनी पंजीयक  
केरल एवं लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स सिटिसन कैपिटल एण्ड क्रेडिट्स इण्डिया लिमिटेड के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 19 मार्च 2010

सं. 11539--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सिटिसन कैपिटल एण्ड क्रेडिट्स इण्डिया लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. अमीरूल मिल्लथ  
कम्पनी पंजीयक  
केरल एवं लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स श्रीनिधि अपार्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 19 मार्च 2010

सं. 8844--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्रीनिधि अपार्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. अमीरूल मिल्लथ  
कम्पनी पंजीयक  
केरल एवं लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स पी एण्ड 8 टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 19 मार्च 2010

सं. 16720--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पी एण्ड 8 टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. अमीरूल मिल्लथ  
कम्पनी पंजीयक  
केरल एवं लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स केन्टन होस्पिटैलिटी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 19 मार्च 2010

सं. 14205--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स केन्टन होस्पिटैलिटी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. अमीरुल मिल्लथ  
कम्पनी पंजीयक  
केरल एवं लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स अक्टोगन इन्फोरमेशन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नै-600006, दिनांक 19 मार्च 2010

सं. 560(3)/का.क.म./कं.पं-चेन्नै/धारा 560/2010/00235--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अक्टोगन इन्फोरमेशन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. सी. दवे  
कम्पनी पंजीयक  
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स विराली लेदर एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नै-600006, दिनांक 19 मार्च 2010

सं. 560(3)/का.क.म./कं.पं-चेन्नै/धारा 560/2010/00225--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स विराली लेदर एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. सी. दवे  
कम्पनी पंजीयक  
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स एटीएसएल सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नै-600006, दिनांक 19 मार्च 2010

सं. 560(3)/का.क.म./कं.पं-चेन्नै/धारा 560/2010/00294--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एटीएसएल सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. सी. दवे  
कम्पनी पंजीयक  
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीपपुंज



## UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110069, the 4th December 2009

No. A-12025/2/2008-Admn.-II—Consequent upon his selection by the Union Public Service Commission, Shri Kumar Sanjay, a permanent Senior Library and Information Assistant of Planning Commission is appointed to the post of Library and Information Officer (General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial) in PB-3, Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- in the office of the Union Public Service Commission on direct recruitment basis w.e.f. 25.11.2009 (AN) [Twenty Fifth November, 2009 (AN)] until further orders.

2. The technical resignation tendered by Shri Kumar Sanjay from the post of Senior Library & Information Assistant has been accepted by the Planning Commission w.e.f. 25.11.2009 (AN).

3. Shri Kumar Sanjay will be on probation for a period of one year w.e.f. 26.11.2009 which may be extended at the discretion of the appointing authority.

4. The appointment of Shri Kumar Sanjay shall be further subject to the terms and conditions as indicated in the UPSC letter of even number dated 16.11.2009.

5. The pay of Shri Kumar Sanjay is fixed @ Rs. 25,350/- w.e.f. 25.11.2009 (A.N.) in PB-3, Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- under CCS (Revised Pay) Rules 2008.

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

The 11th January 2010

No. A-35018/5/2006-Admn.-II—In continuation of this Office Notification of even number dated 10.12.2007, the period of deputation of Shri K. Srinivasan, a regular Assistant of CSS cadre in UPSC who was appointed as Junior Analyst on deputation basis w.e.f. 06.12.2007 in the revised pay structure of PB-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,600/- (Gr. "B", Gazetted) is extended for a further period of one year w.e.f. 18.11.2009 to 17.11.2010 or until further orders, whichever is earlier.

2. During the period of deputation, the pay of Shri K. Srinivasan, JA (OM&WS) will be regulated in accordance with the DoP&T OM No. 2/29/91-Estt. (Pay-II) dated 05.01.94 as amended from time to time.

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

The 17th February 2010

No. A-60011/13/2009-RTI Cell (Admn.)—In terms of Section 19 (1) and Section 5 (2) of the Right to Information Act, 2005, the following officers of UPSC are hereby designated as Appellate Authorities and Central Public Information Officer in respect of the specific subject matter mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the Appellate Authority	Subject Matter	Name of the CPIO
1.	Sh. M. P. Tangirala, JS(E) Tele. No. 23070831 Fax No. 23387310	All matters pertaining to CMS, ESE, IfoS, NDA&NA I & II, CDS I & II, CPF, IES/ISS, GEOL., SCRA, SO/Stenographers (Grade "B") LDCE and other misc. matters concerning Exam. Branch and matters related to Confidential Branch in respect of Exams. mentioned above.	Shri Rameshwar Dayal, DS(E-III) Tele. No. 23384610 Fax No. 23387310
2.	Sh. M. P. Tangirala, JS(E) Tele. No. 23070831 Fax No. 23387310	All matters pertaining to Civil Services Examinations, Policy matters regarding Examinations, matters related to Confidential Branch and matters regarding arrangement of all exams/RTs conducted by UPSC.	Shri Prachish Khannal, DS(E-I) Tele. No. 23381131 Fax No. 23384472
3.	Ms. G. G. Shabong, JS(R-I) Tele. No. 23384290 Fax No. 23388294	All RTI matters pertaining to R-I, Scrutiny Section, SPC-I, SPC-II, Advisor Cell, P&D Bank and Prog. Unit.	Shri Jaswant Singh, DS(R-I) Tele. No. 23098548 Fax No. 23388294
4.	Sh. Kamal Bhagat, JS(R-II) Tele. No. 23385627 Fax No. 23388294	All RTI matters pertaining to R-II, R-III, R-VI, Scrutiny Sections, IFC, R(C&P) and other misc. matters.	Shri P. P. Haldar, DS(R-V) Tele. No. 23387842 Fax No. 2338894

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

The 19th February 2010

No. A-35018/2/2009-Admn.-II—In continuation of this Office Notification of even number dated 27.11.2009, the period of adhoc deputation of Shri Rajesh Joshi, Steno Grade 'C', UPSC to the post of Staff Officer to Chairman, UPSC in the revised pay structure of PB-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- (Gr. "B", Gazetted) is extended for a further period of 3 months w.e.f. 18.02.2010 to 17.05.2010 (giving a technical break on 17.02.2010) or till the post is filled on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

No. A-35018/3/2009-Admn.-II—In continuation of this Office Notification of even number dated 27.11.2009, the period of adhoc deputation of Shri Awadhesh Thakur, Steno Grade 'C', UPSC to the post of Staff Officer to Secretary, UPSC in the revised pay structure of PB-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- p.m. (Gr. "B", Gazetted) is extended for a further period of 3 months w.e.f. 18.02.2010 to 17.05.2010 (giving a technical break on 17.02.2010) or till the post is filled on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

#### CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 18th March 2010

No. DPPERS. (M) 2010/794/3/52/2003—Shri R. K. Sharma relinquished the charge of the post of Office Superintendent, Central Bureau of Investigation with effect from the forenoon of 16.03.2010 on acceptance his voluntary retirement.

M. SACHDEV  
Administrative Officer (Pers.)

#### MINISTRY OF HOME AFFAIRS DIRECTORATE GENERAL CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-03, the 22nd March 2010

No. E-16015/(2)/32/2009/Pers.-I/49—The President is pleased to appoint the following Senior Commandants on regular promotion to the rank of Deputy Inspector General in the Pay Scale of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) (+) Grade Pay of Rs. 8,900/- in CISF with effect from the date noted against each :—

Sl. No.	Name of the Officer	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as Deputy Inspector General on regular basis
1.	Shri B. N. Bhattacharya	DM FHQrs, New Delhi	02.02.2010 (AN)
2.	Shri S. K. Hazra	Airport North Zone, New Delhi	02.02.2010 (AN)
3.	Shri S. R. Dahiya	SECL Bilaspur, Chattisgarh	02.02.2010 (AN)

Sd/-ILLEGIBLE  
Director General/CISF

No. E-16015/52/MDNL/Pers.-II/PF/50—Consequent upon appointment as Chief Security Officer in Mishra Dhatu Nigam Limited, Hyderabad on deputation basis for a period of three years, Shri B. B. Mohakud, Deputy Commandant has relinquished the charge of the post of Deputy Commandant, CISF, ISP Nasik, w.e.f. 31.12.2009 (AN).

Sd/-ILLEGIBLE  
Director General/CISF

#### INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT, ECONOMIC AND SERVICE MINISTRIES

New Delhi-110002, the 26th February 2010

No. AMG-I/Admn.-I/2 (1)/GZT/2010/914—The Principal Director of Audit, Economic and Service Ministries, New Delhi has ordered promotion of the following Asstt. Audit Officers as Audit Officer (Group 'B' Gazetted) in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- from the date shown against them :—

Sl. No.	Name	Date of promotion
	S/Shri/Smt.	
1.	Tushar Kanti Ghosh	16.09.2008
2.	Ms. T. Ushasree	31.07.2008
3.	Kartar Singh Mehra	01.08.2008
4.	Ms. Veena I. Govan Shrote	01.04.2009
5.	Rajender Kumar-I	01.01.2009
6.	Sanjiv Sharma	02.02.2009
7.	Deepak Khurana	19.05.2009
8.	Girish Sharma	01.10.2009
9.	Moloy Mohan Das	20.11.2009
10.	Ms. V. Pratima	24.11.2009
11.	S. J. Patil	24.11.2009
12.	Gainda Lal	01.12.2009
13.	Ms. V. Deepa	09.02.2010
14.	Ms. Megha Kaushik	09.02.2010

J. P. N. SINGH  
Director (Admn.)

#### MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING (FILMS DIVISION)

Mumbai-400026, the 17th March 2010

No. A-32014/2/2009-Est.-I—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Competent Authority has promoted Shri Ashok Kumar Hitaishi, Assistant Cameraman, Films Division, New Delhi to the post of Cameraman (Group 'B') Gazetted, in the scale of pay of Rs. 9,300—34,800/- in Pay Band-2 with Grade Pay of Rs. 4,600/- in the same Office with effect from the forenoon of 16th February, 2010 until further orders.

T. T. FERNANDES  
Sr. Admn. Officer (in-Charge)  
for Director General

**BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE**

Mumbai-400085, the 17th March 2010

**CORRIGENDUM**

No. PD/7(12)/2009-R-IV/SO/F/2770—Reference Notification No. PD/7(12)/2009-R-IV/SO/F/284 dated January 8, 2010. The effective date of promotion of Shri Ram Sewak Singh shown at Sr. No. 46 of the above mentioned Gazette Notification may be corrected to read as "06.07.2009" instead of "01.07.2009".

SHAILAJA PRAKASAM  
Dy. Establishment Officer

No. PD/7(18)/2009-R-IV/TO(B)/ETG/Part File/2796—The Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints the undermentioned Scientific Assistants Grade 'C' of the Bhabha Atomic Research Centre as Technical Officer Grade 'B' in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/- in the same Research Centre with effect from the forenoon of July 01, 2009, in an officiating capacity, until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer
---------	---------------------

- |    |                         |
|----|-------------------------|
| 1. | Shri Nitin Kumar Sharma |
| 2. | Shri Rakesh Kumar       |

SHAILAJA PRAKASAM  
Dy. Establishment Officer

The 18th March 2010

No. PD/7(16)/2009-R-IV/SO(D)/2820—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers Grade 'C' Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- of the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officer/Engineer Grade 'D' in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/- in the same Research Centre with effect from the forenoon of July 01, 2009 except Shri Amol Madhukar Shinde, Sl.No. 10 whose date of appointment is with effect from the forenoon of July 06, 2009, in an officiating capacity until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer
---------	---------------------

- |     |   |
|-----|---|
| 1   | 2   |
| 1.  | Shri Rajesh Kumar Menia                   |
| 2.  | Shri Theodore Soreng                      |
| 3.  | Smt. Goyal Anita H.                       |
| 4.  | Shri Diguvaipalli Hanumanthaiah Parshuram |
| 5.  | Dr. Rajesh Kumar                          |
| 6.  | Shri Padakal Pravin Kumar                 |
| 7.  | Shri Sanjay Kumar Pathak                  |
| 8.  | Smt. Preetha Jayaprakash                  |
| 9.  | Shri S. L. Asanali                        |
| 10. | Shri Amol Madhukar Shinde                 |

- | 1   | 2   |
|-----|---|
| 11. | Shri Harimohan Chittilamvedu Muraleedharan Pillay |
| 12. | Shri Deepak Kumar                                 |
| 13. | Smt. Rachal Cherian                               |
| 14. | Shri K. Padmanaban                                |
| 15. | Shri Rashmi Raj Singh                             |
| 16. | Shri Jothivel Kumarasamy                          |
| 17. | Shri Sandeep Dattatraya Raut                      |
| 18. | Shri Ramkrushna Sheshmani Vishwakarma             |
| 19. | Shri Satre Sanjay Ramchandra                      |
| 20. | Smt. Deepa Anil Kumar                             |
| 21. | Shri Devendra B. Kulkarni                         |
| 22. | Shri Sudesh Mahesh Tripathi                       |
| 23. | Smt. Vaishali M. Thakur                           |
| 24. | Smt. Geeta Waman Nabar                            |
| 25. | Smt. Rekha Pradyumna Upadhye                      |
| 26. | Smt. Turlapaty Swarna                             |
| 27. | Shri Shinde Anil Bhimrao                          |
| 28. | Smt. Soudamini N.                                 |
| 29. | Shri Kadlaskar Annasaheb Pandurang                |

SHAILAJA PRAKASAM  
Dy. Establishment Officer

**DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY**

Mumbai-400001, the 9th March 2010

No. 6(2523)/2010-Adm./2378—The President is pleased to appoint Shri P. V. Dhongadi, Senior Accounts Officer (Pay Band Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 5,400/-) Directorate of Construction, Services & Estate Management, Mumbai by promotion to the post of Deputy Controller of Accounts in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- in the Department of Atomic Energy Secretariat with effect from the forenoon of February 25, 2010.

V.GOVINDANKUTTY  
Under Secy.

No. 6(2441)/2006-Adm./2386—The President is pleased to appoint Shri A. S. Sasikumar, Senior Accounts Officer (C. C. No. 3/554) (Pay Band Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 5,400/-) Department of Atomic Energy Secretariat, Mumbai by promotion to the post of Deputy Controller of Accounts in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- in the Department of Atomic Energy Secretariat with effect from the forenoon of February 23, 2010.

V.GOVINDANKUTTY  
Under Secy.

## RAJARAMANNA CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY

Indore, the 17th March 2010

No. RRCAT/Admn.-2009/R-805 (J)/311—The President is pleased to appoint the following Officials on promotion to the Grade Pay Band and date as indicated against their names in Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore :—

Sl. No.	CC No.	Name	Present Grade (Pay Band + Grade Pay)	Promoted Grade (Pay Band + Grade Pay)	w.e.f. (Forenoon)
1.	603	Shri Pradeep Kant	Scientific Officer/C (PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/-)	Scientific Officer/D (PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/-)	01.07.2009
2.	692	Shri K. N. Yedle	—do—	—do—	—do—
3.	712	Shri Avinendra Kumar	—do—	—do—	—do—
4.	761	Shri T. R. Sajith Kumar	—do—	—do—	—do—
5.	857	Shri M. O. Ittoop	—do—	—do—	—do—
6.	879	Shri Lokesh Kumar Babbar	—do—	—do—	—do—
7.	479	Shri A. P. Singh	Scientific Officer/SB (PB-2, Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/-)	Scientific Officer/C (PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/-)	—do—
8.	1217	Shri Balkrishna Sindal	—do—	—do—	—do—
9.	1369	Shri Ravi Kumar	—do—	—do—	—do—
10.	1383	Shri Anand Yadav	—do—	—do—	—do—
11.	1271	Shri Ashok Kumar	Scientific Assistant/D (PB-2, Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/-)	—do—	01.08.2008

R. P. ACHARYA  
Chief Administrative Officer

## HEAVY WATER BOARD

Mumbai-400094, the 22nd March 2010

No. HWB/R/2(5)/2009/208—The President is pleased to appoint the following persons as Scientific Officers/Engineers Grade 'C' in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- in Heavy Water Plant mentioned against each at column No. 4 with effect from the forenoon of September 01, 2009 in a temporary capacity until further orders :—

Sl. No.	Name	Discipline	Place of Appointment	No. of increments recommended	Initial pay
1.	Shri Aditya Prakash	Electronics	HWP(Kota)	03	Rs. 17,490/-
2.	Shri Huidrom Premjit Singh	Chemistry	HWP(Manuguru)	02	Rs. 16,860/-

K. V. PILLAI  
Administrative Officer-III

## MINISTRY OF WATER RESOURCES

(Central Ground Water Board)

Faridabad, the 22nd March 2010

No. 3-1684/2009-Min.Estt. 2049—On the recommendations of the DPC (Group-B), Sh. H. C. Chhabra is promoted to the post of Private Secretary (Group-B) (GCS Gazetted) in Pay Band-2 in the corresponding Pay Scale of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,600/- in Central Ground Water Board on

temporary basis with effect from the forenoon of 31st December, 2009.

He will be on probation for a period of two years with effect from 31.12.2009 (FN), which can be extended up by the Competent Authority at his discretion, if considered necessary.

MOOLCHAND VERMA  
Senior Administrative Officer

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS  
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sybly Metals & Allied Industries Limited  
New Delhi-110019, the 14th October 2009

No. 560(3)/MCA/RoC-Delhi (CG)/Sec 560/2009/00014—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sybly Metals & Allied Industries Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said Company will be dissolved.

EGINIUS TIRKEY  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Mehsana Marketing Private Limited  
Ahmedabad-380013, the 26th March 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/  
00451/21975—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three month from the date hereof the name of M/s. Mehsana Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

KAMAL HARJANI  
Assistant Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Centaur Infrastructure Private Limited  
Ahmedabad-380013, the 26th March 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/  
00444/21978—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three month from the date hereof the name of M/s. Centaur Infrastructure Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

KAMAL HARJANI  
Assistant Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. M M D H & Sons Wine Private Limited  
Shillong-793001, the 24th March 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Shillong/Sec 560/2010/00263/7975—  
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three month from the date hereof the name of M/s. M M D H & Sons Wine Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

GULAB CHAND YADAV  
Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Beeline Systems Private Limited  
Ernakulam-682021, the 18th March 2010

No. 11259—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Beeline Systems Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

S. M. AMEERUL MILLATH  
Registrar of Companies  
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Sree Neelakanda Engineering Works Private Limited  
Ernakulam-682021, the 19th March 2010

No. 6092/2629—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sree Neelakanda Engineering Works Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

S. M. AMEERUL MILLATH  
Registrar of Companies  
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Elamede Foods Private Limited  
Ernakulam-682021, the 19th March 2010

No. 18294/2631—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Elamede Foods Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

S. M. AMEERUL MILLATH  
Registrar of Companies  
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. CBSL Softech India Private Limited  
Ernakulam-682021, the 19th March 2010

No. 12698/2633—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. CBSL Softech India Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

S. M. AMEERUL MILLATH  
Registrar of Companies  
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. K V A Copra and Oil Udyog Private Limited  
Ernakulam-682021, the 19th March 2010

No. 3830/2636—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. K V A Copra and Oil Udyog Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

S. M. AMEERUL MILLATH  
Registrar of Companies  
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Core Business Credits Limited  
Ernakulam-682021, the 19th March 2010

No. 9742—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Core Business Credits Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

S. M. AMEERUL MILLATH  
Registrar of Companies  
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. South East World Links Private Limited  
Ernakulam-682021, the 19th March 2010

No. 8531/2683—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. South East World Links Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

S. M. AMEERUL MILLATH  
Registrar of Companies  
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Citizen Capital and Credits India Limited  
Ernakulam-682021, the 19th March 2010

No. 11539/2686—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Citizen Capital and Credits India Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

S. M. AMEERUL MILLATH  
Registrar of Companies  
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Sreenidhi Apartments Private Limited  
Ernakulam-682021, the 19th March 2010

No. 8844/2689—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sreenidhi Apartments Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

S. M. AMEERUL MILLATH  
Registrar of Companies  
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. P and 8 Technologies Private Limited  
Ernakulam-682021, the 19th March 2010

No. 16720/2692—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. P and 8 Technologies Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

S. M. AMEERUL MILLATH  
Registrar of Companies  
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Kenton Hospitality Services Private Limited  
Ernakulam-682021, the 19th March 2010

No. 14205/2695—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kenton Hospitality Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

S. M. AMEERUL MILLATH  
Registrar of Companies  
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Virallileather Associates Private Limited  
Chennai-600034, the 12th March 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/Sec 560/2010/00225—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three month from the date hereof the name of M/s. Virallileather Associates Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY  
Registrar of Companies  
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Octagon Information Systems Private Limited  
Chennai-600034, the 12th March 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/Sec 560/2010/00235—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three month from the date hereof the name of M/s. Octagon Information Systems Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY  
Registrar of Companies  
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. ATSL Solutions Private Limited  
Chennai-600034, the 12th March 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/Sec 560/2010/00294—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three month from the date hereof the name of M/s. ATSL Solutions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY  
Registrar of Companies  
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands